

सं. क्यू/पीजी/575/1/2018

विदेश मंत्रालय

(पीओई स्थापना बोर्ड)

प्रति

सभी मंत्रालय एवं विभाग

दिनांक 15 जनवरी 2018

विषय : प्रोटेक्टर ऑफ़ इमीग्रेंट्स स्थापना बोर्ड - V

1. निम्न पाँच शहरों में स्थित प्रोटेक्टर ऑफ़ इमीग्रेंट्स कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति आधार पर रिक्तियों को तुरंत भरने का निर्णय लिया गया है:
(i) कोचीन (ii) जयपुर (iii) मुंबई (iv) रायबरेली (v) तिरुवंतापुरम
2. पीओई कार्यालयों में भरी जाने वाली रिक्तियां उपसचिव/अवर (अंडर) सचिव, अनुभाग अधिकारी, एएसओ और जेएसओ/एसएसए के ग्रेड में हैं | प्रत्येक पीओई कार्यालय में रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक- 'ए' में दिया गया है | पीओई कार्यालयों में तैनाती की अवधि प्रतिनियुक्ति आधार पर न्यूनतम दो वर्षों के लिए होगी |
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों से उचित माध्यम के जरिए उपरोक्त रिक्तियों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो संवर्ग क्लियरेंस के साथ हों | मंत्रालय की सूचना हेतु एक अग्रिम प्रति भी सीधे ही भेजी जानी चाहिए | केवल ऐसे व्यक्ति ही आवेदन करें जो संबंधित प्रोटेक्टर ऑफ़ इमीग्रेंट्स कार्यालय में तुरंत कार्यग्रहण कर सकने की स्थिति में हों | ऐसे अधिकारियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जो जनसंपर्क कौशल और विधिक प्रष्ठभूमि रखते हों |
4. इच्छुक अधिकारी संलग्न प्रारूप में अपने आवेदन पत्र भेजें | अम्यावेदन, केवल निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे जो बोर्ड सहायक, वरिष्ठ स्थापना बोर्ड, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पास विलंबतम **12 फरवरी 2018** तक पहुँच जाने चाहिए | आवेदन पत्र निम्नलिखित ईमेल पर भेजे जाने चाहिए | उक्त तारीख के बाद प्राप्त अम्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा |
5. चयनित व्यक्तियों को एक बार उनके स्थानान्तरण आदेश जारी हो जाने पर अपनी उम्मीदवारी वापस लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी |
6. आवश्यक एपीएआर्स, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स और वार्षिक सम्पत्ति विवरणियों का यथासमय जमा किया जाना अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि पीओई कार्यालयों में तैनाती हेतु उन पर विचार किया जाएगा |
7. इस परिपत्र के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले अधिकारियों का ध्यान केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 20 को ध्यान में रखना चाहिए |

अवर सचिव (पीए III)

संयोजक, पीओईईबी

ई-मेल: uspa3@mca.gov.in

seb@mca.gov.in

विदेश मंत्रालय
(प्रशासन प्रभाग)

—

पीओई कार्यालयों में स्थानांतरण के इच्छुक अधिकारियों हेतु अम्यावेदन प्रारूप

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

- [] प्रोटेक्टर ऑफ़ इमीग्रेंट्स - कार्यालय प्रमुख (डीएस/यूएस ग्रेड)
- [] अनुभाग अधिकारी
- [] एसओ
- [] एसएसए/जेएसए

1. व्यक्तिगत विवरण:

अ)	पूरा नाम एवं पदनाम	
ब)	वर्तमान वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	
स)	पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है	
द)	जन्म तिथि	
य)	शैक्षिक योग्यता	
र)	वर्तमान डिपलॉयमेंट एवं तैनाती का स्थान	
ल)	गत दो वर्षों के दौरान ली गई छुट्टी का विवरण (छुट्टी का प्रकार एवं छुट्टी की अवधि)	
व)	पिछली तैनाती का विवरण, विदेश में, यदि लागू हो और भारत में	
त)	एमईए को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले के लिए आवेदन करने मंत्रालयों के अधिकारियों के मामले में आपसे संबंधित संवर्ग मूल मंत्रालय का नाम	

2. विदेश में और भारत में पिछली तैनातियों का विवरण, यदि लागू हो

मुख्यालय/स्टेशन	वर्गीकरण	तारीखों सहित प्रवास की अवधि

3. वापस बुलाए जाने/अनुशासनिक कारवाई का विवरण, यदि कोई है - वापस बुलाए जाने के कारणों और वापस बुलाए जाने की तारीख बताएं |

4. शहर की प्राथमिकता कारणों सहित यदि कोई है:

--	--	--

5. एपीएआर 2016-17 की जमा करने की तारीख

6. रिपोर्टिंग और समीक्षा करने वाले अधिकारी का नाम

7. 2016 हेतु वार्षिक सम्पत्ति विवरणी जमा करने की तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रोटेक्टर ऑफ़ इमिग्रेंट्स में कार्यकारी दशाओं के बारे में मैं पूर्णतया अवगत हूँ | किसी पीओई कार्यालय में आरंभिक स्थानांतरण पर या मेरी तैनाती अवधि के दौरान मैं किसी भी पीओई कार्यालय में नियुक्ति का इच्छुक हूँ भले ही आवेदन पत्र में वह मेरी पसंद में नहीं दर्शाया गया हो | मैं समझता हूँ की पीओई कार्यालयों में स्थानांतरण का निर्णय जनहित में और मंत्रालय की अपनी प्रशासनिक और क्रियात्मक आवश्यकताओं के मद्देनजर लिया जाता है | निर्णय की बाध्यता से मैं सहमति देता हूँ और निर्णय के पुनरीक्षण हेतु अनुरोध नहीं करूँगा |

मैं सहमति देता हूँ कि मेरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/मूल मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार, मैं पीओई कार्यालय में उसी पद पर अपनी अवधि पूर्ण करूँगा जिस पर मेरा स्थानांतरण किया गया होगा | भले ही किसी उच्च पद पर मेरी पदोन्नति क्यों न हो गई हो |

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

मोबाइल नं..... ई-मेल

नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति

.....
.....

आज की तारीख में आवेदक के विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला नहीं है और उनके विरुद्ध कोई सतर्कता कारवाई विचाराधीन नहीं है |

विदेश मंत्रालय
(प्रशासन प्रभाग)

पीओई कार्यालयों में रिक्तियां

पीओई कार्यालय	डीएस/यूएस स्तर	अनुभाग अधिकारी	एसओ	एसएसए/जेएसए	कुल
कोचीन	-	-	-	4	4
जयपुर	-	-	-	1	1
मुंबई	-	1	1	5	7
रायबरेली	-	-	1	-	1
तिरुवनंतापुरम	1	-	-	2	3
कुल	1	1	2	12	16